

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 1966/भाद्र 29, 1888

No. 189) NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1966/BHADRA 29, 1888

इस भाग में निम्न पृष्ठ तैयार की जायी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th September 1966

G.S.R. 1189.—In pursuance of clause 4A of the Foodgrains (Prohibition of Use in Manufacture of Starch) Order, 1966, the Central Government hereby authorizes each of the officers specified in the Schedule below to issue permits for use of damaged or deteriorated foodgrains within his respective jurisdiction.

THE SCHEDULE

- 1 The Deputy Director (Technical), Office of the Regional Director (Food), Northern Region, New Delhi.
- 2 The Deputy Director (Technical), Office of the Regional Director (Food), Southern Region, Madras.
- 3 The Deputy Director (Technical), Office of the Regional Director (Food), Eastern Region, Calcutta.
- 4 The Deputy Director (Technical), Office of the Regional Director (Food), Western Region, Bombay.

[No 205(GENL)(1)/901/66-PY.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

